



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2009/माघ 10, 1930

No. 210]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2009/MAGHA 10, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2009

का.आ. 367(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने; राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण (सं. 916), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में 1 जुलाई, 2008 को सं. का.आ. 1600(अ) में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा, केरल के त्रिसूर जिले में 401/000 से 404/750 कि.मी. तक राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के कोडुंगलूर बाइपास (चंडप्पुरा से कोट्टापुरम) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षित भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और, जबकि उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन 14 जुलाई, 2008 के दैनिक समाचार पत्र, केरल कौमुदी और 14 जुलाई, 2008 के दैनिक समाचार पत्र, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित किया गया है।

और, जबकि आक्षेप प्राप्त हुए हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका निस्तारण कर दिया गया है।

और, जबकि सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी थी;

केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

मेथला गांव

अनुसूची

केरल के जिला त्रिस्स तालुक कोडुगलूर में 401/000 से 404/750 किमी० (चंडपुरा से कोट्टापुरम खंड) तक रासा-17 कोडुगलूर बाइपास के निर्माण (चौकीकरण) के लिए अधिगृहीत की जाने वाली ढांचा सहित अथवा ढांचा रहित भूमि

क्र. सं०.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या/उप प्रभाग संख्या		भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	वर्ग मीटर में भूमि	प्राप्त सूचना के अनुसार भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
				उप प्रभाग से पूर्व	उप प्रभाग के पश्चात्				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	त्रिस्स	कोडुगलूर	मेथला						
2				849 / 4	849 / 18 ए	असिंचित	निजी	102	टी. एस. बालन, तिरुविल हाउस मेथला
3					849 / 18 बी	असिंचित	निजी	974	गोपी, एडामुताय हाउस, हरेकृष्णा, मेथला
4					849 / 18 सी	असिंचित	निजी	577	सुन्दरन पुत्र श्री संकू, चोम्बडाथरविल
5				849 / 6	849 / 20 ए	असिंचित	निजी	16	टी. एस. बालन, तिरुविल हाउस मेथला
6					849 / 20 बी	असिंचित	निजी	20	गोपी, एडामुताय हाउस, हरेकृष्णा, मेथला
					849 / 20 सी	असिंचित	निजी	826	एम. के. त्रिपुरा पत्नी श्री बालन, तिरुविल

7						849 / 8	849 / 16	असिंचित	निजी	155	टी.एस. बालन, तिरुविल मेथला
8						849 / 9	849 / 17	सिंचित	निजी	53	टी.एस. बालन, तिरुविल मेथला
9						852 / 1	852 / 2	असिंचित	पुरमबोक	265	पुरमबोक मार्ग
10						1058 / 1	1058 / ए	असिंचित	निजी	161	शांता पट्टी श्री मुरलीधरन मेनन, तोट्टापिल्लिल हाउस
11							1058 / बी	असिंचित	निजी	49	लीला, पजयिल्लत हाउस
12							1058 / सी	असिंचित	निजी	44	शशिधरन, मुल्लुवातुक्कल हाउस
13						1058 / 3	1058 / ए	असिंचित	निजी	28	शशिधरन, मुल्लुवातुक्कल हाउस
14							1058 / बी	असिंचित	निजी	164	लीला, पजयिल्लत हाउस
15						1058 / 8	1058 / ए	असिंचित	निजी	31	शशिधरन, मुल्लुवातुक्कल हाउस
16							1058 / बी	असिंचित	निजी	91	लीला, पजयिल्लत हाउस
17						1059 / 2	1059 / 4ए	असिंचित	निजी	2	चंद्रशेखरन, मुल्लुवातुक्कल हाउस
18							1059 / 4बी	असिंचित	निजी	4	स्कैया पट्टी श्री अबु, एडवनक्कड हाउस
19							1059 / 4सी	असिंचित	निजी	19	कैराली वार होटल
20						1061 / 1	1061 / ए	असिंचित	निजी	1055	गिरिजन, मेदुपराबिल हाउस
21							1061 / बी	असिंचित	निजी	135	रधा गोपीनाथन, मुल्लुवातुक्कल (हाउस)

22					1061 / 21 सी	असिंचित	निजी	320	मुरलीधरन मेनन, तोंटोपिल्लिल हाउस
23					1061 / 21 डी	असिंचित	निजी	66	मुल्लुवातुक्कल धर्म देव क्षेत्रम (वाङ्गी)
24					1061 / 21 ई	असिंचित	निजी	64	चंद्रिका, मुल्लुवातुक्कल हाउस
25					1061 / 21 एफ	असिंचित	निजी	64	अंबिका, मुल्लुवातुक्कल हाउस
26					1061 / 21 जी	असिंचित	निजी	25	राधा गोपीनाथन, मुल्लुवातुक्कल (हाउस)
27					1061 / 21 एच	असिंचित	निजी	28	मुल्लुवातुक्कल धर्म देव क्षेत्रम
28				1061 / 3	1061 / 22	असिंचित	निजी	183	राधाकृष्णन, एन्धरमंगलत
29				1061 / 5	1061 / 23 ए	असिंचित	निजी	162	चंद्रशेखरन, मुल्लुवातुक्कल हाउस
30					1061 / 23 बी	असिंचित	निजी	163	रामचंद्रन, मुल्लुवातुक्कल
31					1061 / 23 सी	असिंचित	निजी	162	राघव मेनन, मुल्लुवातुक्कल
32					1061 / 23 डी	असिंचित	निजी	164	रामचंद्रन, इंदिरा पत्नी श्री रामचंद्रन, मुल्लुवातुक्कल
33					1061 / 23 ई	असिंचित	निजी	203	विजयलक्ष्मी, मुल्लुवातुक्कल
W/o 34					1061 / 23 एफ	असिंचित	निजी	121	रतिदेवी मुल्लुवातुक्कल हाउस
35				1061 / 6	1061 / 24 ए	असिंचित	निजी	704	राजीवन, पुतेनवीलिल

36						1061 / 24	असिंचित	निजी	594	करणाकरन, पुतेनवीतिल
37					1061 / 7	1061 / 25	असिंचित	निजी	457	प्रसेनन, नेदुपराबिल
38						1061 / 25	असिंचित	निजी	124	उन्नीकृष्णन, नेदुपराबिल हाउस
39					1061 / 8	1061 / 26	असिंचित	निजी	288	संजीव, पुत्र श्री रामाकृष्णन, वल्तोमपरंबत, पनिकासेरी
40						1061 / 28	असिंचित	निजी	148	प्रसेनन, नेदुपराबिल हाउस
41						1061 / 26	असिंचित	निजी	735	उन्नीकृष्णन, नेदुपराबिल हाउस
42						1061 / 26	असिंचित	निजी	587	पुष्पांगतन, नेदुपराबिल हाउस
43					1061 / 9	1061 / 27	असिंचित	निजी	243	तंकम्मा, पुत्री श्री कृष्णन, कंजीरापारंबिल हाउस
44						1061 / 27	असिंचित	निजी	273	देवकी, पुत्री श्री कृष्णन, कंजीरापारंबिल हाउस
45						1061 / 27	असिंचित	निजी	117	लक्ष्मी, पुत्री श्री कुमारन, अन्य
46						1061 / 27	असिंचित	निजी	142	नलिनी, कंजीरापारंबिल हाउस
47						1061 / 27	असिंचित	निजी	121	रविन्द्रन, कंजीरापारंबिल हाउस
48						1061 / 27	असिंचित	निजी	240	सावित्री, कंजीरापारंबिल हाउस
49						1061 / 27	असिंचित	निजी	181	नंदिनी, कंजीरापारंबिल हाउस

50						1061 / 27 एच	असिंचित	निजी	81	देवकी, पत्नी श्री गंगाधरन, कंजीरापारंबिल हाउस
51				1061 / 10		1061 / 28 ए	असिंचित	निजी	1005	अध्यक्ष, संस्कृत विद्या पीठ
52						1061 / 28 बी	असिंचित	निजी	160	अली, एडावनक्कड हाउस
53						1061 / 28 सी	असिंचित	निजी	56	नफीसा, एडावनक्कड हाउस
54						1061 / 28 डी	असिंचित	निजी	420	फातिमा, पत्नी श्री बाबु एवं अन्य एडावनक्कड
55				1061 / 11		1061 / 29	सिंचित	निजी	23	राधाकृष्णन, ईश्वरमंगलत हाउस
56				1061 / 12		1061 / 30	असिंचित	निजी	20	राधाकृष्णन, ईश्वरमंगलत
57				1061 / 13		1061 / 31	असिंचित	निजी	804	सजीव पुत्र श्री रामाकृष्णन, वल्लोमपरमबत पानिकुसेरी
58				1061 / 18		1061 / 18	असिंचित	निजी	971	1) जयालक्ष्मी मुलुयातुक्कल 2) बेदी पत्नी श्री शिवशंकर मेनन, कैलासम
59				1061 / 19		1061 / 32 ए	असिंचित	निजी	162	इब्राहिम एवं अनवर, एडावनक्कड
60						1061 / 32 बी	असिंचित	निजी	75	राबिया, एडावनक्कड
61						1061 / 32 सी	असिंचित	निजी	141	खदीजा पत्नी श्री सैदू एवं अन्य एडावनक्कड
62						1061 / 32 डी	असिंचित	निजी	182	स्कैया, लीबि, लावू, लीसा, एडावनक्कड हाउस

63					1061	32 / ई	असिंचित	निजी	6	चंद्रशेखरन, मुल्लुवातुकल हाउस
64					1061	32 / एफ	असिंचित	निजी	40	लाल, एडावनक्कड
65				1063 / 4	1063	/ 9	असिंचित	निजी	777	राधाकृष्णन, ईश्वरमंगलत
66				1063 / 5	1063	/ 10	असिंचित	निजी	795	राधाकृष्णन, ईश्वरमंगलत
67				1065 / 1	1065	/ 3ए	असिंचित	पुरमबोक	239	सरकार
68					1065	/ 3बी	तालाब	पुरमबोक	361	सरकार
69					1065	/ 3सी	असिंचित	पुरमबोक	58	सरकार
70					1065	/ 3डी	असिंचित	पुरमबोक	116	सरकार
71				1066 / 1	1066	/ 6	असिंचित	निजी	249	वेणुगोपल पुत्र श्री अरविदाशन, चान्नीयिल, ईश्वरमंगलत हाउस
72				1066 / 2	1066	/ 7	इडावाजी	पुरमबोक	53	सरकार

[फा. सं. 12014/1002/07-के एल (सी-7)]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2009

S.O. 367(E).—Wherein by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1600 (E) Dated 1st July, 2008 published in the Government of India Gazette Extra Ordinary (No. 916) Part II section 3, sub section (ii) and issued under sub section (I) of section 3A of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) (herein after referred to as the said act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building / construction, maintenance, management and operation of Kodungallur Bye pass (Chandappura- Kottappuram) in NH -17 from KM. 401/000 to 404/750 in Thrissur District in Kerala State.

And whereas the substance of the said notification has been published in Kerala Koumudi Daily dated 14-07-2008 and in New Indian Express daily dated 14-07-2008 under sub section (3) of section 3A of the said Act.

And whereas objections have been received and the same have been disposed off by the Competent Authority.

And whereas in pursuance of sub section (1) of the section 3D of the said act, the Competent Authority had submitted its report to the Central Government.

Upon the receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub section (1) of the section 3D of said act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule given below should be acquired for aforesaid purpose

And further, in pursuance of sub section (2) of section 3D of the said act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the said schedule shall vest absolutely to the Central Government free from all encumbrances.

METHALA VILLAGE

SCHEDULE

Land to be acquired, with or without structures for building (widening) of NH-17 Kodungallur Bypass from km. 404/000 to km. 404/750 (Chandapura to Kottapuram section) in Thrissur district Kodungallur Taluk in the state of Kerala

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey No./Sub Division No.		Nature of Land	Type of Land	Extent of Land in square Meter	Reported name of land owner / Interested Person
				Before sub division	After sub division				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Thrissur	Kodungallur	Methala						
1				849 / 4	849 / 18A	Dry	Private	102	T.S. Balan, Theruvil House Methala
2					849 / 18B	Dry	Private	974	Gopi, Edamuttath House, Harekrishna, Methala
3					849 / 18C	Dry	Private	577	Surendran, S/o Sanku, Chemmandaparambil
4				849 / 6	849 / 20A	Dry	Private	16	T.S. Balan, Theruvil House Methala
5					849 / 20B	Dry	Private	20	Gopi, Edamuttath House, Harekrishna, Methala
6					849 / 20C	Dry	Private	826	M.K. Thripura, W/O Balan, Theruvil
7				849 / 8	849 / 16	Dry	Private	155	T.S. Balan, Theruvil, Methala
8				849 / 9	849 / 17	Wet	Private	53	T.S. Balan, Theruvil, Methala
9				852 / 1	852 / 2	Dry	Puramboke	265	Puramboke Road
10				1058 / 1	1058 / 10A	Dry	Private	161	Santha, W/o Muralaheedharan Menon, Thottappillil House
11					1058 / 10B	Dry	Private	49	Leela, Pazhayillath House
12					1058 / 10C	Dry	Private	44	Sasidharan, Muliuvathukkal House
13				1058 / 3	1058 / 11A	Dry	Private	28	Sasidharan, Muliuvathukkal House

425 GI/09-2

14				1058 / 11B	Dry	Private	164	Leela, Pazhayillath House
15			1058 / 8	1058 / 12A	Dry	Private	31	Sasidharan, Mulluvathukkal House
16				1058 / 12B	Dry	Private	91	Leela, Pazhayillath House
17			1059 / 2	1059 / 4A	Dry	Private	2	Chandrasekaran, Mulluvathukkal House
18				1059 / 4B	Dry	Private	4	Rukia, W/o Abu, Edavanakkad House
19				1059 / 4C	Dry	Private	19	Kairali Bar Hotel
20			1061 / 1	1061 / 21A	Dry	Private	1055	Girijan, Nedumparambil House
21				1061 / 21B	Dry	Private	135	Radha Gopinathan, Mulluvathukkal (House)
22				1061 / 21C	Dry	Private	320	Muraleedhran Menon, Thottappillil House
23				1061 / 21D	Dry	Private	66	Mulluvathukkal Dharmma Daiva Kshrethram (Vazhi)
24				1061 / 21E	Dry	Private	64	Chandrika, Mulluvathukkal House
25				1061 / 21F	Dry	Private	64	Ambika, Mulluvathukkal House
26				1061 / 21G	Dry	Private	25	Radha Gopinathan, Mulluvathukkal (House)
27				1061 / 21H	Dry	Private	28	Mulluvathukkal Dharmma Daiva Kshrethram
28			1061 / 3	1061 / 22	Dry	Private	183	Radhakrishnan, Eswaramangalath
29			1061 / 5	1061 / 23A	Dry	Private	162	Chandrasekaran, Mulluvathukkal House
30				1061 / 23B	Dry	Private	163	Ramachandran, Mulluvathukkal
31				1061 / 23C	Dry	Private	162	Raghava Menon, Mulluvathukkal
32				1061 / 23D	Dry	Private	164	Ramachandran, Indira W/o Ramachandran, Mulluvathukkal
33				1061 / 23E	Dry	Private	203	Vijayalakshmi, Mulluvathukkal

34					1061 / 23F	Dry	Private	121	Rathidevi Mulluvathukkal House
35				1061 / 6	1061 / 24A	Dry	Private	704	Rajeevan, Puthenveetil
36					1061 / 24B	Dry	Private	594	Karunakaran, Puthenveetil
37				1061 / 7	1061 / 25A	Dry	Private	457	Prasenani, Nedumparambil
38					1061 / 25B	Dry	Private	124	Unnikrishnan, Nedumparambil House
39				1061 / 8	1061 / 26A	Dry	Private	288	Sajeer, S/o Ramakrishnan, Vallomparambath, Panikkassery
40					1061 / 26B	Dry	Private	148	Prasenani, Nedumparambil House
41					1061 / 26C	Dry	Private	735	Unnikrishnan, Nedumparambil House
42					1061 / 26D	Dry	Private	587	Pushpangathan, Nedumparambil House
43				1061 / 9	1061 / 27A	Dry	Private	243	Thankamma, D/o Krishnan, Kanjiraparambil House
44					1061 / 27B	Dry	Private	273	Devaki, D/o Krishnan, Kanjiraparambil House
45					1061 / 27C	Dry	Private	117	Lakshmi, W/o Kumaran, Others
46					1061 / 27D	Dry	Private	142	Nalini, Kanjiraparambil House
47					1061 / 27E	Dry	Private	121	Raveendran, Kanjiraparambil House
48					1061 / 27F	Dry	Private	240	Savithri, Kanjiraparambil House
49					1061 / 27G	Dry	Private	181	Nandini, Kanjiraparambil House
50					1061 / 27H	Dry	Private	81	Devaki, W/o Gangadharan, Kanjiraparambil House
51				1061 / 10	1061 / 28A	Dry	Private	1005	President, Samskritha Vidya Peedam

52					1061 / 28B	Dry	Private	160	Ali, Edavanakkad House
53					1061 / 28C	Dry	Private	56	Nafeesa, Edavanakkad House
54					1061 / 28D	Dry	Private	420	Fathima, W/o Babu, & Others Edavanakkad
55				1061 / 11	1061 / 29	Wet	Private	23	Radhakrishana, Eswaramangalath House
56				1061 / 12	1061 / 30	Dry	Private	20	Radhakrishnan, Eswaramangalath
57				1061 / 13	1061 / 31	Dry	Private	804	Sajeev, S/o Ramakrishnan, Vallomparambath Panikkassery
58				1061 / 18	1061 / 18	Dry	Private	971	1) Jayalakshmi Mulluvathukkal 2) Baby, W/o Sivasankara Menon, Kailasam
59				1061 / 19	1061 / 32A	Dry	Private	162	Ebrahim & Anwar, Edavanakkad
60					1061 / 32B	Dry	Private	75	Rabia, Edavanakkad
61					1061 / 32C	Dry	Private	141	Khadeeja, W/o Saidu, & Others, Edavanakkadu
62					1061 / 32D	Dry	Private	182	Rukia, Liby, Lalu, Lissa, Edavanakkad House
63					1061 / 32E	Dry	Private	6	Chandrasekaran, Mulluvathukkal House
64					1061 / 32F	Dry	Private	40	Lalu, Edavanakkad
65				1063 / 4	1063 / 9	Dry	Private	777	Radhakrishnan, Eswaramangalath
66				1063 / 5	1063 / 10	Dry	Private	795	Radhakrishnan, Eswaramangalath
67				1065 / 1	1065 / 3A	Dry	Puramboke	239	Government
68					1065 / 3B	Pond	Puramboke	361	Government
69					1065 / 3C	Dry	Puramboke	58	Government
70					1065 / 3D	Dry	Puramboke	116	Government

71				1066 / 1	1066 / 6	Dry	Private	249	Venugopal, S/o Aravindakshan, Chaliyil Eswaramangalath House
72				1066 / 2	1066 / 7	Edavazhi	Puramboke	53	Government

[F. No. 12014/1002/07-KL (P-7)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.